



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 366] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 1982/अग्राहायण 10, 1904  
No. 366] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 1982/AGRAHAYAN 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग-अलग रूप में पढ़ा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be used as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर 1982

अधिसूचना

सं० 287/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० वि० 732 (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पहली अनुसूची की मद सं० 37 की उपमद 11 (1) के अधीन प्राप्ति वाली और फिल्म प्रभाग, मुम्बई द्वारा निर्मित और फिल्म प्रभाग के मुखद नियमित, द्वारा समाचार फिल्मों (न्यूजरीलों) के रूप में घोषित भारतीय समाचार समीक्षाओं के वर्णन की सिनेमा फिल्मों पर और जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन 55 पैसे प्रति मीटर की दर से उत्पाद शुल्क का संदाय नहीं किया गया था और वित्त अधिनियम 1981 (1981 का 16) की धारा 49 के अधीन इस प्रकार प्रत्येक रकम के 10% के बराबर रकम का विशेष उत्पाद शुल्क के रूप में संदाय नहीं किया गया था किन्तु जिनकी विद्यमान प्रथा के अनुसार निकाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 78/79 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 1979 के आधार पर इस प्रकार प्रत्येक रकम के बराबर रकम का यदि समाचार फिल्म (न्यूजरील) 30 मि० मी० या

अधिक की चौड़ाई वाली थी तो प्रति मीटर 8 पैसे की रियायती दर पर या यदि वह 30 मि० मी० से कम की चौड़ाई वाली थी तो प्रति मीटर 5 पैसे की रियायती दर पर और वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 के अधीन इस प्रकार प्रत्येक रकम के 10% के बराबर विशेष उत्पाद शुल्क के संदाय पर कोई भी, उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित (जिनके अर्थात् अनुग्रहण भी है) एक प्रथा साधारणता प्रचलित थी। यह निदेश देती है कि ऐसी समाचार फिल्मों (न्यूजरीलों) पर यदि उक्त प्रथा प्रचलित न होती तो संदेय उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क से अधिक शुल्क ऐसी फिल्मों की वास्तव संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

[फा० सं० 60/18/81-सी० एक्स० 2]

डी० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st December, 1982

NOTIFICATION

No. 287/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Central Excises Act), the Central Government being satisfied that a practice was

generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) on Cinematograph Films of the description of Indian news reviews, falling under sub-item 11(i) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises Act, and produced by the Films Division, Bombay, and declared as newsreels by the Chief Producer Films Division on which duty of excise was not paid under section 3 of the Central Excises Act at the rate of 55 paise per metre and the special duty of excise equal to 10 per cent of the amount so chargeable was not paid under section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), but according to the existing practice the newsreels had been cleared at concessional rates of 8 paise per metre if they were of a width of 30

MM or higher and of 5 paise per metre if they were below 30 MM in width by virtue of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 78/79 Central Excises, dated the 1st March, 1979, under section 3 of the Central Excises Act and 10 per cent of the amount so chargeable under section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), hereby directs that the said duty of excise and the special duty of excise in excess of that payable on such newsreels, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such Films.

[F. No. 60/18/81-CX. 2]  
D. MEHTA, Under Secy.